# **HPL Electric & Power Limited**



CIN: L74899DL1992PLC048945

Corporate Office: 76B, HSIIDC Industrial Estate Phase IV, Sector 57, Kundli, Sonipat, Haryana-131028, INDIA. Ph.: 09996600658 | E-mail: hpl@hplindia.com

Website: www.hplindia.com

15th February, 2024

The Manager,
Listing Department,
National Stock Exchange of India Ltd.
"Exchange Plaza", C-1, Block G,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai – 400 051

25<sup>th</sup> Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001

Mumbai – 400 051 **Symbol: HPL** 

**Scrip Code: 540136** 

**BSE Limited** 

**Subject: Publication of Newspaper Advertisement** 

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of the Newspaper Advertisement (Un Audited Financial Results for the quarter and nine month ended 31st December, 2023) published today in Business Standard (English and Hindi Edition).

This is for your kind information and record please.

Thanking You,

For HPL Electric & Power Limited

Vivek Kumar Company Secretary

> Registered Office : 1/20, Asaf Ali Road, New Delhi - 110 002 Tel.: +91-11-23234411 | Fax:+91-11-23232639

11.50

# MPL

### **MAITHON POWER LIMITED**

NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST

Facility & Catering Services at MPL Township and Guest House For details of pre-qualification requirements, bid security, purchasing of tender document etc., please visit Tender section of our website (URL: https://www.tatapower.com/tender/tenderlist.aspx).

Eligible vendors willing to participate may submit their expression of interest along with the tender ent latest by 26th Feb, 2024.



### **ALKEM LABORATORIES LIMITED** CIN: L00305MH1973PLC174201

Registered Office: 'Alkem House', Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013. Phone: +91 22 3982 9999 Fax:+91 22 2495 2955 Website: www.alkemlabs.com. Email: investors@alkem.com

NOTICE

Members are hereby informed that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013, read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with the Ministry of Corporate Affairs Circulars No. 14/2020 lated 08th April, 2020, No. 17/2020 dated 13th April, 2020, No. 22/2020 dated 15th June, 2020, No. 33/2020 dated 28th September, 2020, No. 39/2020 dated 31st December, 2020, No. 02/2021 dated 13th January 2021, No. 10/2021 dated 23<sup>rd</sup> June, 2021, No. 20/2021 dated 08th December, 2021, No. 03/2022 dated 05th May, 2022, No. 11/2022 dated 28th December, 2022 and No. 09/2023 dated 25th September, 2023 the Company shall dispatch the Postal Ballot Notice only through lectronic mode to those members whose email IDs are registered with the Company/ Depository Participants and whose names appear on the Register of Members / List of Beneficial Owners as on Friday 23rd February, 2024 ("cut-off date") for seeking approval of the Members of the Company by Postal Ballot, only through remote e-voting system, fo

The Postal Ballot Notice will also be made available on the Company' website https://www.alkemlabs.com/Postal-Ballot.php, CDSL website vi www.evotingindia.com and website of the stock exchanges where equity shares of the Company are listed i.e. BSE Limited viz www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited viz. <u>www.nseindia.com</u>.

business as may be specified in the Postal Ballot Notice. Detailed

nstructions on remote e-voting shall be given in the Postal Ballot Notice.

The Members in order to receive the Postal Ballot Notice and future communications from the Company shall register their email addresses with the Company/ Depositories, by clicking the link https://linkintime.co.in/emailreg/email\_register.html and completing the egistration process

In case any Member has gueries, grievances or issues relating to above registration, Members are requested to write an email to rnt.helpdesk@linkintime.co.in or may write to Ms. Ashwini Nemlekar, Lin Intime India Private Limited, C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083; Phone Number; 022-49186000

For Alkem Laboratories Limited

**Manish Narang** Place : Mumbai President - Legal, Company Secretary & Date: 14th February, 2024 **Compliance Officer** 



# **KALYANI STEELS LIMITED**

CIN: L27104MH1973PLC016350 Regd. Office: Mundhwa, Pune - 411 036, Maharashtra. India Tel No.: 020-66215000 Fax No.: 020-26821124 Website: www.kalvanisteels.com Email: investor@kalvanisteels.com

# **NOTICE OF POSTAL BALLOT**

NOTICE is hereby given that pursuant to the provisions of Section 110 read with er applicable provisions, if any, of the Compa ("the Act"), read together with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force) and any other applicable provisions of the Act and the Rules made thereunder, read with the General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020 and 17/2020 dated April 13, 2020, followed by General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and subsequent Circulars issued in this regard, the latest being 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("Listing Regulations") and other applicable provisions, if any, of the Listing Regulations, for the time being in force read along with SEBI Master Circular No.SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023 and SEBI Circular No.SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 ("SEBI Circulars") and the Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("SS-2"), the approval of the members of the Company is sought for the resolution set-out below, which is proposed to be passed by way of Postal Ballot by voting through electronic means only ("e-Voting"):

Sr. No.	Description of Proposed Resolution	Type of Resolution
1.	Appointment of Mr.Sanjeev G. Joglekar (DIN 00073826) as an Independent Director	Special Resolution

Pursuant to MCA and SEBI Circulars, the Postal Ballot Notice accompanied by the explanatory statement has been dispatched on Wednesday, February 14. 2024 through electronic mode to those members whose e-mail addresses are registered with the Company / Depository Participants as on Friday, February 9, 2024 ("Cut-off date").

The Postal Ballot Notice is available on the website of:

- 1. The Company at www.kalyanisteels.com
- 2. BSE Limited ("BSE") at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com where the Equity Shares of the Company are listed; and
- National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com

The Company has engaged the services of NSDL to provide e-Voting facility to its members. The e-Voting commences on Friday, February 16, 2024 at  $9.00\,$ a.m. (I.S.T.) and ends on Saturday, March 16, 2024 at 5.00 p.m. (I.S.T.). The e-Voting facility will be disabled thereafter. The voting rights of members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-off Date. Only those members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners by the Depository Participants as on Cut-off Date will be entitled to cast their votes by e-Voting. A person who is not a member as on Cut-off Date should treat this Postal Ballot Notice for information purpose only.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr.Sridhar Mudaliar (Membership No. FCS 6156 COP 2664), or failing him, Mrs.Meenakshi Deshmukh (Membership No. FCS 7364 COP 7893), Partners of M/s. SVD & Associates, Company Secretaries, Pune as the 'Scrutinizer', to scrutinize the e-Voting process in a fair and transparent manner.

In case of queries or issues regarding e-Voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQ's) for members and e-voting user manual for members at the Downloads Section of http://www.evoting.nsdl.com

The results of Postal Ballot will be announced on or before Tuesday, March 19. 2024 and shall be intimated to BSE and NSE. The result would be also uploaded on the website of the Company at <a href="www.kalyanisteels.com">www.kalyanisteels.com</a> and also on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com

For Kalyani Steels Limited

### **PRIME FOCUS LIMITED**

Registered Office: Prime Focus House, Opp Citi Bank, Linking Road, Khar West, Mumbai - 400 052 Phone: 022-67155000 Fax: 022-67155001 Website: www.primefocus.com Corporate Identity Number (CIN): L92100MH1997PLC108981

### UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS PERIOD ENDED DECEMBER 31, 2023

	_						₹ In lakhs
Sr.			Quarter ende	ed	Nine Mon	ths ended	Year ended
No.	r articulars	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations (net) Net profit / (loss) for the period	84,084.91	1,02,630.25	1,10,593.52	3,07,743.97	3,20,877.36	4,64,425.85
3	(before tax, exceptional items) Net profit / (loss) for the period before tax	-11,814.12	-28,396.50	6,927.69	-47,091.10	12,350.80	36,617.64
4	(after exceptional items) Net profit / (loss) for the period after tax	-11,814.12	-28,396.50	6,927.69	-47,091.10	6,346.62	30,613.46
	(after exceptional items)	-7,899.87	-25,698.72	4,189.13	-40,807.91	401.96	19,449.09
5	Total comprehensive income / (loss) for the period	-19,900.77	-16,177.08	-384.32	-47,960.48	-18,107.83	-8,531.96
6 7	Equity share capital Reserves (excluding revaluation reserve) as shown in the audited balance sheet of	2,995.37	2,995.37	2,995.37	2,995.37	2,995.37	2,995.37
8	the previous year Earnings per share (before exceptional items) (net off tax) (of ₹ 1 each) (Not Annualised)						-477.08
	a) Basic (₹) b) Diluted (₹)					2.14 2.10	8.50 8.35
9	Earnings per share (after exceptional items) (of ₹ 1 each) (Not Annualised)						
ı	a) Basic (₹)	-2.64	-8.58	1.40	-13.62	0.13	6.49
	b) Diluted (₹)	-2.64	-8.58	1.37	-13.62	0.13	6.38
	Key numb	ers of Stan	dalone Fina	ncial Result	s		₹ In lakhs
Sr.	Particulars		Quarter ende	ed	Nine Mont	hs ended	Year ended
No	. Faiticulars	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023

(Loss) / Profit after tax 50.91 18.86 -286.1052.01 -1.215.83-2.446.0The above is an extract of detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Other Disclosure Requirements) Regulation 2015. The full format of the quarterly financial results are available of the Stock Exchanges website www.nseindia.com and www.bseindia.com and also on company's website www.primefocus.com. The above Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respect

753.95

-38.32

711.78

For Prime Focus Limite

3,128.96

Audited

4,074.2

Chairman and Whole-time Directo Date: February 13, 2024



Turnover (net sales)

(Loss) / Profit before tax

meetings held on February 13, 2024.

# HPL ELECTRIC & POWER LIMITED

Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited

724.04

2,184.10

-101.32

**CIN**: L74899DL1992PLC048945 Regd. Office: 1/20, Asaf Ali Road, New Delhi 110 002 **Ph.:** +91-11-23234411, **Fax:** +91-11-23232639 E-mail: hpl@hplindia.com, Website: www.hplindia.com

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER **AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023** (Rs. in Lakhs

Sr.	- · ·	Q	uarter ende	ed	Nine Mon	Year Ended	
No.	Particulars	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	36,556.96	35,045.14	30,158.51	1,03,676.53	89,945.57	1,26,220.87
2	Net Profit/ (Loss) for the Period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,897.46	1,694.31	980.72	4,670.02	2,920.27	4,668.78
3	Net Profit/ (Loss) for the Period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,897.46	1,694.31	980.72	4,670.02	2,920.27	4,668.78
4	Net Profit/ (Loss) for the Period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,194.66	1,102.30	638.37	2,990.80	1,898.13	3,024.89
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax )}	1,188.10	1,096.05	620.31	2,972.35	1,848.73	3,006.77
6	Equity share capital	6,430.05	6,430.05	6,430.05	6,430.05	6,430.05	6,430.05
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	•	-			72,922.22
8	Earnings Per Share (face value of Rs. 10 each)						
	1. Basic (Rs.)	1.86	1.71	0.99	4.64	2.94	4.69
	2. Diluted (Rs.)	1.86	1.71	0.99	4.64	2.94	4.69

KEY STANDALONE FINANCIAL INFORMATION FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023 (Rs. in Lakhs										
Sr.		Q	uarter ende	ed	Nine Mon	ths Ended	Year Ended			
No.	Particulars	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023			
NO.		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited			
1	Total Income from Operations	35,758.94	33,796.33	28,684.40	1,00,761.21	86,267.10	1,21,486.69			
2	Profit before tax	1,830.92	1,549.67	861.56	4,383.55	2,622.21	4,275.38			
3	Profit after tax	1,154.29	1,005.54	560.02	2,806.98	1,706.03	2,775.73			

Place: New Delhi

Date: 14.02.2024

- 1) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Director's at their respective meetings held on February 14, 2024. The statutory auditors of the Company have conducted limited review of these financial results, pursuant to Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015.
- The above is an extract of the detailed format of quarter and nine months ended financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and nine months ended financial results are available on the websites of the Stock Exchanges (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the Company's website www.hplindia.com
- Previous quarter/year ended figures have been regrouped/ restated wherever necessary.

For and on behalf of the Board of HPL Electric & Power Limited Rishi Seth Managing Director DIN:00203469

# BAMBINO AGRO INDUSTRIES LIMITED

**EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS** 

CIN: L15440TG1983PLC004363

FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER 2023 (Rs. in lakhs

No.4E, Surya Towers, S.P. Road, Secunderabad - 500 003, Telephone No. 040-44363332, Email id cs@bambinoagro.com, Website: www.bambinoagro.com

Quarter Ended Quarter Ended Year Ended 31-12-2023 31-12-2022 31-03-2023 **Particulars** Unaudited Unaudited **Audited** 1 Total Income 7544.48 7403.66 30510.23 2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax 171.90 227.48 1300.07 Exceptional and /or Extraordinary items) 3 Net Profit / (Loss) for the period before tax 171.90 227.48 1300.07 (after Exceptional and /or Extraordinary items) 120.51 921.38 176.94 4 Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and /or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period 120.51 176.94 921.38 (Comprising Profit/Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) 800.88 800.88 6 Equity Share Capital Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (not annualised): 1.50 11.50 1. Basic 2.21

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India(Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015 The full format of the Un Audited financial Results is available on the websites i.e. www.bseindia.com www.bambinoagro.com For and on behalf of the Board of Directors of **BAMBINO AGRO INDUSTRIES LIMITED** 

Sd/-SHIRISHA RAGHUVEER MYADAM **CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR** 

DIN: 07906214

# ASIAN HOTELS (EAST) LIMITED

CIN No. - L15122WB2007PLC162762

Regd Office: Hyatt Regency Kolkata, JA-1, Sector III, Salt Lake City, Kolkata - 700 106 Tel: 033 6820 1344/1346, Fax: 033 2335 8246, Email: investorrelations@ahleast.com, Website: www.ahleast.com EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR

# THE QUARTER (Q3) & NINE-MONTH ENDED 31st DECEMBER 2023

(Rs in lakhs, except share and per share data) Consolidated Nine-month SI Quarter ended **Particulars** 31.12.2023 31.12.2022 No 31.12.2023 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) 1) Total Income from Operations (Net) 3,217.90 7,485.55 2,590.81 2) Net Profit / (Loss) for the period before Exceptiona 234.09 849.58 670.78 Items and Tax Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items) 234.09 1,665.12 670.78 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items) 174.76 1.243.08 501.49 Total Comprehensive Income for the period 177.14 1.250.23 504.76 1,729,17 1.729.17 1.729.17 Equity Share Capital Other Equity (excluding Revaluation reserves as shown in Balance Sheet of Previous year) 19,380.22 19,380.22 17,990.61 "Earnings Per Share for the period after extraordinary activities (Face Value Rs 10/- each)" Basic 1.01 7.19 2.90 Diluted 1.01 7.19 2.90

Notes:

2. Diluted

Place: Secunderabad

Date: 14-02-2024

1 The key information on the Standalone Unaudited financial results are as below:

(Rs in lakhs) Standalone Nine-month Quarter ended Quarter ended Particulars 31.12.2023 31.12.2022 31 12 2023 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) Total Income from Operations (Net) 3,217.90 2,590.81 7,485.55 Net Profit / (Loss) for the period before tax 235.74 1,670.67 672.62 Net Profit / (Loss) for the period after tax 176.42 1.248.63 503.34 178.81 1,255.78 506.61 Total Comprehensive Income

- The above is an extract of the detailed format of standalone and consolidated unaudited financial results for the quarter (Q3) and nine-month ended 31st December, 2023 submitted with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI Listing Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on the stock exchanges websites: www.bseindia.com and www.nseindia.com and that of the Company's website at www.ahleast.com The Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter (Q3) and nine-month
- ended 31st December, 2023 were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Directors in their meeting held on 13th February, 2024.
- Figures for the previous periods have been regrouped, wherever necessary, to confirm to the current period's classification.

By order of the Board of Directors

For Asian Hotels (East) Limited

Place : Kolkata Date: 13th February 2024 Jt. Managing Director



# SPML INFRA LIMITED

CIN: L40106DL1981PLC012228

Registered Office: F-27/2, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi- 110020

Website: www.spml.co.in, email-id: cs@spml.co.in

Extract of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine months ended 31st December. 2023 (Rs. in Lakhs)

		STANDA	ALONE					CONSOLIDATED						
Qı	uarter Ended		Nine Mon	ths Ended	Year Ended		PARTICULARS		Quarter End	led	Nine Months Ended			
31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023			31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023	
(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)			(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
25,151.80	25,337.99	15,247.06	85,519.59	41,513.83	87,779.58	1.	Total income from operations		25,390.42	15,327.69	85,776.14	41,964.16	88,314.31	
170.34	67.25	(517.55)	315.68	(887.95)	265.99	2.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	186.07	110.47	(392.47)	351.26	(1,190.12)	289.37	
170.34	67.25	(517.55)	315.68	(887.95)	265.99	3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	186.07	110.47	(392.47)	351.26	(1,190.12)	289.37	
97.93	53.07	(517.55)	218.19	(940.24)	211.05	4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	113.88	37.18	(509.10)	195.64	(1,334.32)	33.81	
107.78	61.20	(507.33)	225.08	(928.01)	218.14	5.	Total Comprehensive Income for the period	123.72	45.31	(498.88)	202.53	(1,322.09)	40.38	
1066.00	1,066.00	994.90	1066.00	994.90	994.90	6.	Equity Share Capital	1,066.00	1,066.00	994.90	1,066.00	994.90	994.90	
						7.	Earnings Per Share (of Rs.2/- each) in Rs.							
0.20	0.11	(1.09)	0.45	1.98	0.44		Basic & Diluted	0.23	0.07	(1.18)	0.39	(2.80)	0.08	

- # The Company does not have any Exceptional and Extraordinary items to report in above periods
- The above is an extract of the detailed format of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the 3rd quarter and nine months ended 31st December, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the 3rd quarter and
- nine months ended 31st December, 2023 are available on the websites of the Stock Exchange(s) i.e NSE at www.nseindia.com and BSE at www.bseindia.com and the Company's website www.spml.co.in The Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the 3rd quarter and nine months ended 31st December, 2023 was approved by the Audit Committee and the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on 13th February, 2024

For SPML Infra Limited Subhash Chand Sethi

Date: 13th February, 2024 Place: Kolkata

Mrs.Deepti R. Puranik Company Secretary Place: Pune Date: February 14, 2024

Chairman DIN: 00464390

### सार्वजनिक सूचना

जनता को एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि, हमारे क्लाइंट मैसर्स मुथूट फाईनान्स लि. द्वार 24th February 2024 को (बंधक आभूषणों की-एनपीए खातों) आयोजित होने वाली सार्वजनिक नीलार्म कुछ अपरिहार्य कारणों से स्थिगित कर दी गई है और अब 18th March 2024 को सार्वजनिक नीलामी पुन निर्धारित की गई है। सार्वजनिक नीलामी का स्थान एवं समय वही रहेगा जो कि पहले ही संबंधित कर्ज़्दारों को अधिसुचित किया जा चुका है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, इच्छुक व्यक्ति हमारे क्लाइंट की संबंधित भाखा में सम्पर्क कर सकते हैं।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट

ए 59ए, पहली मजिल, लाजपत नगर-॥, नई दिल्ली - 110024 ग्राहक नीलामी की निर्घारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गिरवी रखे गहनों को छुड़ा सकते हैं। ग्राहक **ईमेल आईडीः recoverynorth@muthootgroup.com** 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

#### सार्वजनिक सूचना आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि, हमारे क्लाइंट मैसर्स मुथूट फाईनान्स लि. द्वारा 24th February 2024 को (बंधक आभूषणों की-एनपीए खातों) आयोजित होने वाली सार्वजनिक नीलामी कुछ अपरिहार्य कारणों से स्थिगित कर दी गई है और अब 11th March 2024 को सार्वजनिक नीलामी पन निर्धारित की गई है। सार्वजनिक नीलामी का स्थान एवं समय वही रहेगा जो कि पहले ही संबंधित कर्जदारों को अधिसूचित किया जा चुका है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, इच्छुक व्यक्ति हमारे क्लाइंट की संबंधित शाखा में सम्पर्क कर सकते हैं।

### कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट

ए 59ए, पहली मंज़िल, लाजपत नगर-॥, नई दिल्ली - 110024 ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भगतान करके अपने गिरवी रखे गहनों को छड़ा सकते हैं। ग्राहक **ईमेल आईडीः recoverynorth@muthootgroup.com** 7834886464. 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

### FORM NO. 5

# **DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW** 600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow- 226007 (Area of Jurisdiction-Part of Uttar Pradesh)

Summons for filing Reply & Appearance by Publication

### [Summons to defendants under section 19(3), of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 read with Rules 12

and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules, 1993)] ..APPLICANT (Branch office at: 81, P L Sharma Road, Meerut

**VERSUS** M/s Ansh Sports & Ors..... ..DEFENDANTS

- 1. M/s Ansh Sports (Through is Proprietor Mr. Kuldeep Kumar S/o Mr. Prem Singh) Registered office: 194, New Hanuman Puri Suraj Kund Road, Meerut- 250001.
- 2nd Address: 120, Khirni Mohalla, Abdullapur, Meerut. (Borrower) 2. Mr. Kuldeep Kumar S/o Mr. Prem Singh, (Proprietor of M/s Ansh Sports), Registered Office: 194, New Hanuman Puri, Surai Kund
- Road, Meerut- 250001 (Borrower). PAN No. AOCPK7809K 3. Mr. Ashu Kashyap S/o Late. Ram Prakash, H.No. 69, Arya Nagar. S.K. Road, Meerut- 250001 (Guarantor) DEFENDANT:-

In the above noted Application, you are required to file reply in Paper Book form in Two sets along with documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the Applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of the summons and thereafter to appear before the Tribunal on 24.04.2024 at 10:30 A.M. failing which the applicant shall be heard and decided in your absence.

Debts Recovery Tribunal, Lucknow

# एवोनमोर कैपिटल एंड मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड

CIN: L67190MH1991PLC417433 पंजीकृत कार्यालयः लेवल 5, ग्रांडे पैलेडियम, 175 सीएसटी रोड, ऑफ बीकेसी कलिना, सांताक्रूज गुंबई-400098 कार्पोरेट कार्यालयः एफ-33/3, ओखला आंधागिक क्षेत्र, फंज-2, नई दिल्ली-110020 फोन: 011-43500700, फैक्स: 011-43500735 वेबसाइटः www.avonmorecapital.in, ई-मेल आईडी: delhi@almondz.com

31 दिसम्बर 2023 को समाप्त तिमाही / नौमाही के लिए समेकित अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का उद्धरण (रूपये लाख में पति शेयर देटा को छोडकर)

दिसम्बर 31, 2022 अनंकेक्षित	दिसम्बर 31, 2023	दिसम्बर 31, 2022	मार्च
अनंकेक्षित			31, 2023
	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित
2,237	7,819	18,907	21,479
319	978	13,722	13,938
319	978	13,722	13,938
376	901	11,277	11,530
271	1,778	11,268	11,568
2,400	2,400	2,400	2,400
			25,241
1.59	3.81	47.71	48.78
1.59	3.81	47.71	48.78
1.59	3.81	47.71	48.78
1.59	3.81	47.71	48.78
	319 376 271 2,400 1.59 1.59	319 978 319 978 376 901 271 1,778 2,400 2,400  1.59 3.81 1.59 3.81	319 978 13,722  319 978 13,722  376 901 11,277  271 1,778 11,268 2,400 2,400 2,400  1.59 3.81 47.71  1.59 3.81 47.71

ह्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों की प्रमुख संख्या समाप्त नौमाही समाप्त तिमाही समाप्त वर्ष सितम्बर दिसम्बर दिसम्बर दिसम्बर दिसम्बर विवरण 31, 2023 31, 2022 31, 2023 31, 2023 30, 2023 31, 2022 ां के क्षित अनंकेक्षित प्रचालनों से कुल आय 3,218 3,53 कर से पहले सामान्य गतिविधियों से लाभ (73) (121) 2,727 2,706

(49)

170

(45)

कर के बाद सामान्य गतिविधियों से लाभ

अविध के लिए कुल व्यापक आय (अविध के लिए

लाभ / (हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय

कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 133 के तहत वितीय परिणाम को निर्धारित इंड एएस के अनुसार तैयार किये गए हैं।

562

- सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दर्ज की गई, उपरोक्त अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप कंपनी की वेबसाइट यानि <u>www.avonmorecapital.in</u> और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानि www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध है।
  - 31 दिसम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही / नौमाही के लिए समेकित अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों (पीएटी) में सहयोगियों से संबंधित आंकडे शामिल हैं: मैसर्स प्रीमियर अल्कोबेव प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स अलमोंड्ज इनसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड।

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से एवोनमोर कैंपिटल एंड मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड

(19)

832

2,044

2.029

स्थानः नई दिल्ली तिथिः 14 फरवरी, 2024

अशोक कुमार गुप्ता प्रबंघ निदेशक DIN: 02590928



# HPL ELECTRIC & POWER LIMITED

CIN: L74899DL1992PLC048945 Regd. Office: 1/20, Asaf Ali Road, New Delhi 110 002 Ph.: +91-11-23234411, Fax: +91-11-23232639

E-mail: hpl@hplindia.com, Website: www.hplindia.com EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER

	AND NINE MONT	HS END	ED DECI	EMBER 3	31, 2023		(Rs. in Lakhs)
Sr		Q	uarter ende	ed	Nine Mon	ths Ended	Year Ended
No.	Particulars	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	36,556.96	35,045.14	30,158.51	1,03,676.53	89,945.57	1,26,220.87
2	Net Profit/ (Loss) for the Period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,897.46	1,694.31	980.72	4,670.02	2,920.27	4,668.78
3	Net Profit/ (Loss) for the Period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,897.46	1,694.31	980.72	4,670.02	2,920.27	4,668.78
4	Net Profit/ (Loss) for the Period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,194.66	1,102.30	638.37	2,990.80	1,898.13	3,024.89
5	Total Comprehensive Income for the period {comprising profit for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax)}	1,188.10	1,096.05	620.31	2,972.35	1,848.73	3,006.77
6	Equity share capital	6,430.05	6,430.05	6,430.05	6,430.05	6,430.05	6,430.05
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	1	72,922.22
8	Earnings Per Share (face value of Rs. 10 each)						
	1. Basic (Rs.)	1.86	1.71	0.99	4.64	2.94	4.69
	2. Diluted (Rs.)	1.86	1.71	0.99	4.64	2.94	4.69

KEY STANDALONE FINANCIAL INFORMATION FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023 (Rs. in Lakhs, Quarter ended Nine Months Ended Year Ended Particulars 31.12.2023 30.09.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.03.2023 Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited Total Income from Operations 33,796.33 28,684.40 1,00,761.21 86,267.10 .21,486.69 2 Profit before tax 1,830.92 1,549.67 861.56 4.383.55 2,622.21 4,275.38 3 Profit after tax 1,154.29 1,005.54 560.02 2,806.98 1,706.03 2,775.73

### Notes:

Place: New Delhi

Date: 14.02.2024

1 परिचालन से कल आय

निवल लाभ / (हानि)

5 समता अंश पूंजी

क) मूलभूत (रु.)

क) मूलभूत (रु.)

ख) तरलीकृत (रु.)

टिप्पणियाँ ः

ष्थान : दिल्ली

दिनांक : 14-02-2024

ख) तरलीकृत (रु.)

2 कर उपरांत साधारण गतिविधियों ये

(असाधारण मदों के उपरांत) 4 कुल व्यापक आय (अवधि हेतु लाभ/(हानि)

(कर उपरांत) तथा अन्य व्यापक आय से समाविष्ट)

3 कर पश्चात् अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि)

आय प्रति अंश (असाधारण मदों से पूर्व) (अवार्षिकीकृत) : (रु. 10 / - प्रत्येक का)

8 आय प्रति अंश (असाधारण मदों के उपरांत) (अवार्षिकीकृत) : (रु. 10 / - प्रत्येक का

बैठक में अनुमोदित किया गया है।

वहां–वहां पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

आरिक्षत (पुनर्मूल्यांकन आरिक्षितियाँ छोड़कर, पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन पत्र में निदर्शितानुसार)

2,027

2.062

हस्ता /-

- 1) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Director's at their respective meetings held on February 14, 2024. The statutory auditors of the Company have conducted limited review of these financial results, pursuant to Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015.
- 2) The above is an extract of the detailed format of quarter and nine months ended financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and nine months ended financial results are available on the websites of the Stock Exchanges (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the Company's website www.hplindia.com

बॉन बॉयोटेक लिभिटेड

सीआईएन : L74899DL1985PLC022468

पंजीकृत कार्यालय : सी-64, लाजपत नगर-1, नई दिल्ली 110024

31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के एकल अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

284.66

-60.74

-60.74

-60.57

300.03

-2.02

-2.02

-2.02

-2.02

उपरोक्त सारांश, सेबी (सुचीकरण दायित्व एवं अन्य प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक

2. उपरोक्त परिणामों की समीक्षा. लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गई है तथा परिणामों को निदेशक मंडल द्वारा 14-02-2024 को आयोजित अपर

3. वित्तीय परिणामों को व्यापक रूप में लागू कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली 2015 (आईएनडी—एएस) के अनुसार तैयार किया गय है। कंपनी ने 01 अप्रैल 2016 की ट्रांजीशिन तिथि के साथ 01 अप्रैल 2017 को आरंभ हुये आईएनडी-एस को पहली बार अंगीकृत किया है

कंपनी प्राथमिक रूप में फॉर्मास्युटिकल्स के व्यवसाय में कार्यव्यस्त है। तद्नुसार, यहाँ परिचालनपरक खण्डवारों के साथ संव्यवहार करने वे

5. पूर्ववर्ती वर्ष/अविध के आंकड़ों को, वर्तमान अविध के आंकड़ों के साथ तुलनायोग्य बनाने के लिये, जहां कहीं भी अनिवार्य समझा गया है

की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर तथा कंपनी की वेबसाइट (www.brawnbiotech.com) पर उपलब्ध हैं।

लिये आईएनडी-एएस 108 के अनुसार कोयी भी पृथक प्रतिवेदनयोग्य खण्डवार नहीं है।

के पास फाइलबद्ध त्रैमासिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश हैं। त्रैमासिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, स्टॉक एक्सचेंज

समाप्त तिमाई

291.87

-42.2

-42.27

-42.80

300.03

-1.43

-1.43

-1.43

-1.43

3) Previous guarter/year ended figures have been regrouped/ restated wherever necessary.

For and on behalf of the Board of HPL Electric & Power Limited Rishi Seth Managing Director DIN:00203469

एकल

31.12.2023 | 30.09.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.03.2023

630.89

-3.72

-5.49

300.03

-0.18

-0.18

-0.18

-0.18

समाप्त नौ माह

1,747.80

-26.02

-26.02

-30.08

300.03

-1.00

-1.00

-1.00

-1.00

बोर्ड हेतु तथा उसकी ओर रे

कृते ब्रॉन बॉयोटेक लिमिटेड

डीआईएन नं : 0097496

हस्ता./

निदेशव

बृज राज गुप्ता

1,304.82

-120.24

-120.24

-120.66

300.03

-4.02

-4.02

-4.02

-4.02

समाप्त वर्ष

लेखापरीक्ष

2,223.06

-86.8

-86.81

-91.11

300.03

-3.04

-3.04

-3.04

-3.04

एचडीएफसी बैंक HDFC BANK प्रधान कार्यालयः एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापित बापत मार्ग, लोअर परेल (वेस्ट), मुम्बई-400013

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों)/बंधककर्ता(ऑ)/जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनयम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी मांग के अनुपालन में बैंक के बकाए तथा नीचे वर्णित ब्याज की वसुली के लिए उसकी बिक्री करने के अधिकार के साथ एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने निम्नलिखित ऋण खाताओं में निम्नलिखित संपत्तियों का अधिग्रहण कर लिया है तथा ऋणधारक द्वारा उसके भुगतान में विफलता के बाद उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक के बकाए की वसूली के लिए अधोहस्ताक्षरी ''जहां है जैसे है, जो है यही है, जो कुछ भी है वहीं है तथा उपचार रहित आधार'' पर उसकी बिक्री का प्रस्ताव करते हैं। नीचे वर्णित सम्पत्ति की वेब पोर्टल https://hdfcbank.auctiontiger.net के माध्यम से ई-नीलामी द्वारा की जाएगी।

अचल सम्पत्तियों का विवरण/खाते/राशि/ईएमडी/आदि का विवरण

प्रतिपृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक के पास गिरवी रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई

अंचल कार्यालयः एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, विशेष प्रचालन विभाग, भूतल, गुलाब भवन, 6 बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002

क्र. सं.	शाखा तथा खाता∕कर्जदार का नाम	सम्पत्ति के बंधककर्ता तथा जमानती का नाम	सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना के अनुसार राशि माँग सूचना की तिथि	तिथि एवं	आरक्षित मूल्य ईएमडी संविदा वृद्धि राशि	ई−नीलामी की तिथि∕ समय	बोली प्राप्ति की अन्तिम तिथि	अधिकृत प्राधिकारी का नाम∕फोन नं.∕ ई–मेल आईडी
1.	प्राइवट लिमिटड - परिसमीपन म (पूर्व की मैसर्स गोल्डन इंडिया एक्सपोट्रेड प्राइवेट लिमिटेड) खाता नंबर: 5020002797810/	ज्ञान चंद्र अग्रवाल और श्री	मद संख्या 1 यूनिट नं. ए-36, ए-37, ए-38 तथा ए-43, 14,077 वर्ग फुट का सुपर एरिया, एट्टियम फ्लोर, पार्कर मॉल, जी.टी. रोड, एनएच-1, सेक्टर -62, कुंडली, सोनीपत - 131028, हत्याना पर	रु.56,69,15,278.02 मांग सूचना को तिथः 08-अगरत-2019 क्रेडिट युविधाओं के तहत पूर्ण और अंतिम भुगतान की तारीख तक लागत और व्यय के साथ अतिरिक्त ब्याज के साथ 07-अगरत-2019 तक का बकाया	03:00 बजे अप.	হ. 5,72,00,000/- হ. 57,20,000/- হ. 2,00,000/-	11/03/2024 को 03:30 बजे अप. से 04:30 बजे अप.	08/03/2024 को 4.00 बजे अप. तक	श्री अनिरुद्ध भार्गव मोबाइल : 8802112088 aniradh.bhargav @hdfcbank.com
2.	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, दिल्ली मैसर्स रेडियंट इंडस्ट्रीज, प्रोपराइटर श्री संजीव सहगल खाता नं. 50200004083590 / 84732725/8362938	संजीव सहगल, श्रीमती	मद संख्या 2 संपत्ति क्रमांक 4/12 का संपूर्ण भूतल, बिना छत के अधिकार के, 100 वर्ग गज माप, सुभाष नगर, नई दिल्ली		02/03/ 2024 को 02:00 बजे अप. से 03:30 बजे अप.	্চ. 1,01,00,000/- চ. 10,10,000/- চ. 1,00,000/-	21/03/2024 को 10:30 बजे पूर्वा. से 11:30 बजे पूर्वा.	19/03/2024 को 4.00 बजे अप. तक	श्री अनिरुद्ध भार्गव मोबाइल : 8802112088 aniradh.bhargav @hdfcbank.com
	04/32/23/0302738		मद सं. 3 औद्योगिक सम्पत्ति खसरा नं. 38, भूमि माप 149 वर्ग गज, लाल डोरा (1908-09), गांव डाबरी, डाबरी इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110045 में स्थित	लागत और खर्च के साथ	02/03/	を. 1,70,00,000/- を. 17,00,000/- を. 1,00,000/-	21/03/2024 को 10:30 बजे पूर्वा. से 11:30 बजे पूर्वा.	19/03/2024 को 4.00 बजे अप. तक	श्री अनिरुद्ध भार्गव मोबाइल : 8802112088 aniradh.bhargav @hdfcbank.com

नियम एवं शर्ते : 1. ई-नीलामी ''जैसा है जहां है, जो है यही है, जो भी वहां है तथा उपचार-रहित आधार'' पर आयोजित की जा रही है। 2. इच्छुक बोलीदाता को वेबपोर्टल https://hdfcbank.auctiontiger.net पर इएमडी के विवरणों तथा दस्तावेजों को जमा करना होगा (युजर आईडी तथा पासवर्ड https://hdfcbank.auctiontiger.net पर नाम पंजीकृत कर निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है) लागिन माध्यम से ईएमडी का भुगतान अधोलिखित खाताः 5750000904261, खाता नामः DFSO TRANSITORY ACCOUNT, लाभभोगी का नामः एचडीएफसी बैंक लि., आईएफएससी कोडः HDFC0000240 मे एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा या एचडीएफसी बैंक लि., खाता नं. 5750000904261 के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा ऊपर तालिका में वर्णित तिथि को 4.00 बजे अप. या उससे पूर्व किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि ईएमडी राशि के रूप में चेक स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इच्छुक बोलीदाताओं को केवाईसी दस्तावेज अर्थात पैन कार्ड की प्रति; पहचान का प्रमाण/पते का प्रमाण (केवाईसी) अर्थात वोटर आईडी कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/राशन कार्ड आदि की स्व-सत्यापित प्रति भी जमा करने होंगे और सत्यापन के लिए उनकी मूल प्रति ले जानी चाहिए। 5. मद संख्या 1 यानी पार्कर मॉल की संपत्ति 50,585 वर्ग फुट का एक बड़ा हॉल है जिसमें 8 एकीकृत इकाइयां शामिल हैं, जिनमें से 4 विशेष रूप से एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के पास गिरवी हैं (जैसा कि यहां ऊपर दी गई तालिका में बताया गया है)। शेष इकाइयाँ विशेष रूप से क्रमशः आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, साउथ इंडियन बैंक और इंडसइंड बैंक लिमिटेड के पास गिरवी हैं। 6. मद संख्या 1 की संपत्तियां कंपनी की परिसमापन संपत्ति से बाहर हैं। 7. इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने ईएमडी जमा कर दी है और उन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे हमारे सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर), अहमदाबाद. हेल्पलाइन नंबरः 079-68136880/68136837, श्री राम शर्मा मोबाइलः 9978591888, हेल्प लाइन ई-मेल आईडीः ramprasad@auctiontiger.net और support@auctiontiger.net से संपर्क कर सकते हैं और संपत्ति संबंधी किसी भी प्रश्न के लिए ऊपर बताए अनुसार प्राधिकृत अधिकारी से कार्य दिवसों के दौरान कार्यालय समय. (सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक) संपर्क कर सकते हैं। ß उच्चतम बोली एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के अनमोदन के अधीन होगी। पाधिकत अधिकारी के पास पाप सभी या किसी भी परताव बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी विशिष्ट संपत्ति के संबंध में बिना कोई कारण बताए संपत्ति या सभी की नीलामी रह करने का अधिकार सरक्षित है। उनका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। (विस्तत नियम और शर्तों के लिए कपया हमारी वेबसाइट www.hdfchank.com और मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) का वेब पोर्टल, https://hdfcbank.auctiontiger.net देखें)

सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत 30/15 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना ऋणधारकों/ गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि ई-नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज तथा सहायक खर्चे के साथ उपरोक्त राशि का भुगतान करें अन्यथा सम्पत्ति की नीलामी/ बिक्री कर दी जाएगी तथा शेष बकाया. यदि कोई हो. ब्याज तथा लागत के साथ वसूल की जाएगी।

स्थानः दिल्ली

SPM

**Engineering Life** 

एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड

प्राधिकृत अधिकारी, एचडीएफसी बैंक लि.

सीआईएन: L40106DL1981PLC012228 पंजीकृत कार्यालयः एफ-27/2, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण- ॥, नई दिल्ली- 110020

वेबसाइट: www.spml.co.in, ईमेल-आईडी: cs@spml.co.in

31 दिसम्बर, 2023 को समाप्त तृतीय तिमाही और नौमाही के लिए स्टैंडअलोन और समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण (रु लाख में)

		स्टैं ड३	ालोन				<u> </u>	समेकित								
	समाप्त तिमाही		समाप्त	समाप्त नौमाही समाप्त वार्षिकी			विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त	समाप्त वार्षिकी				
31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023			31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023			
अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित			अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित			
25,151.80	25,337.99	15,247.06	85,519.59	41,513.83	87,779.58	1.	प्रचालनों से कुल आय	25,223.61	25,390.42	15,327.69	85,776.14	41,964.16	88,314.31			
170.34	67.25	(517.55)	315.68	(887.95)	265.99	2.	अवधि का शुद्ध लाभ (कर, आपवादिक तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व #)	186.07	110.47	(392.47)	351.26	(1,190.12)	289.37			
170.34	67.25	(517.55)	315.68	(887.95)	265.99		अविध का कर पूर्व शुद्ध लाभ (कर, आपवादिक तथा / अथवा असाधारण मदों के उपरान्त #)	186.07	110.47	(392.47)	351.26	(1,190.12)	289.37			
97.93	53.07	(517.55)	218.19	(940.24)	211.05		अवधि का कर उपरान्त शुद्ध लाम (आपवादिक तथा/ अथवा असाधारण मदों के उपरान्त #)	113.88	37.18	(509.10)	195.64	(1,334.32)	33.81			
107.78	61.20	(507.33)	225.08	(928.01)	218.14	5.	अवधि की कुल व्यापक आय	123.72	45.31	(498.88)	202.53	(1,322.09)	40.38			
1066.00	1,066.00	994.90	1066.00	994.90	994.90		इक्विटी शेयर पूँजी	1,066.00	1,066.00	994.90	1,066.00	994.90	994.90			
						7.	आय प्रति अंश (रू. 2 प्रत्येक की) रू. में									
		( ( )								(, , , , ,		(0.00)				

0.11 0.45 1.98 0.44 मूल एवं घटाकर # कंपनी के पास उपरोक्त अविध में रिपोर्ट करने के लिए कोई असाधारण और असाधारण मद नहीं है।

- 1.उपरोक्त 31 दिसम्बर, 2023 को समाप्त तृतीय तिमाही और नौमाही के लिए अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक विवरण है, जो सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर किया गया है। पूर्ण 31 दिसम्बर, 2023 को समाप्त तृतीय तिमाही और नौमाही के लिए अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय
- परिणामों का प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज (ओं) की वेबसाइटों अर्थात एनएसई की www.nseindia.com और बीएसई www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट वेबसाइट www.spml.co.in पर उपलब्ध है। 2.31 दिसम्बर, 2023 को समाप्त तृतीय तिमाही और नौमाही के लिए अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों को कंपनी की लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल द्वारा 13 फरवरी, 2024 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में अनुमोदित किया गया था।

एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड के लिए सुभाष चंद सेठी

सार्वजनिक सूचना

21st February 2024 को (बंधक आभूषणों की-एनपीए खातों) आयोजित होने वाली सार्वजनिक नीलामी कुछ अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है और अब **11<sup>th</sup> March 2024** को सार्वजनिक नीलामी पुनः निर्घारित की गई है। सार्वजनिक नीलामी का स्थान एवं समय वही रहेगा जो कि पहले ही संबंधित कर्ज़दारों को अधिसुचित किया जा चुका है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, इच्छुक व्यक्ति हमारे क्लाइंट की संबंधित कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट

ए 59ए, पहली मंज़िल, लाजपत नगर-॥, नई दिल्ली - 110024 प्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गिरवी रखे गहनों को छुड़ा सकते हैं। ग्राहक **ईमेल आईडीः recoverynorth@muthootgroup.com** 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

nand Rathi Global Finance Ltd Express Zone, A Wing, ANAND RATHI 10th Floor, Western Express Highway, Diagonally Opposite Oberol Mall, Goregaon (E), Wumbai 400063.

मोचन सूचना ) मैसर्स एक्यरेट इंजीनियरिंग वर्क्स (कर्जदार) पता: - एस-59 60. साइट २. लोनी गेड औद्योगिक श्रेत्र मोडन ना बाद-201007 (2) श्री इकबाल हलदर (सह-कर्जदार), (3) श्री सैयद सलीम हलदर नकवी (सह-कर्जदार), (4

श्रीमती कनीज फातमा (सह-कर्जदार) पता संख्या। 3/161, सेक्टर-2, आवासीय कॉलोनी, राजेंद्र नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, उत्त

ते संख्या 37161, संबद्धर-2, आयासाय कालाना, र देश- 201005, भारत षय: संदर्भ: ऋण खाता संख्या APPL00005192 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) 2002 ('नियम') के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण

और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') के तहत अचल संपत्तियों की मुक्ति/बिक्री के लिए 30 दिनों का मोचन नोटिस यह वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और उसके तहत निर्मित नियम वे

तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए बकाया बकाया की वसली के लिए प्रतिभत संपत्ति को प्रवर्तित करने के उद्देश्य से आनंद राठी ग्लोबल ारति साथ का बनाना कर हुए बनाना बना बहुता के गर बना है। फाइनेंस लिमिटेड हारा शुरू की गई सभी फिहली कानूनी कारीवाई का तर्दर्भ है। आप ऋण खाता संख्या APPL00005192 में बन देनदारियों के निवंहन के लिए भुगतान करने में विफल रहे हैं, सरफैसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत ई-नीलामी या निजी संधि के माध्यम से नीचे उल्लिखित अचल प्रतिभृत संपत्ति को बेचने का प्रस्ताव है। आपके संज्ञान में पुनः लाया गया है कि न्यायालय से आदेश प्राप्त होते ही संपत्ति का कब्जा ले लिया जाएगा।

र जीपन का हमा ज पार्च का बन्जा र राज्य जा है। यह नीटिस आप सम्बोधितियों को प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के अनुपालन में सरफैरी अधिनियम के तहत आपके द्वारा लागत और शुल्क तथा व्यय और आगे की सर्विदात्मक बकाया राशि और भुगतान तक ब्याज, बकाया का इस नीटिस से 30 दिनों से पहले किसी भी समय आपके ऋण खाते में भुगतान करके मोचन के अधिकार के लिए दिया गया है क्योंकि वर्तमान नीटिस इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा और आपको एतद्द्वारा सूचित और अधिसूचित किया जाता

इश्यान्य का आत को प्राप्त के उठ एसा को समाव पर स्थान है जाएगा आ है कि उक्त संपत्त के ई-मीलामी मिजी सिंधि के माध्यम से बेवा जाएगा यह ध्यान दें कि रु. 1,09,09,888/- (रुपये एक करोड़ नौ लाख नौ हजार आठ सी अट्ठासी मात्र) की राशि बकाया है और भुगता यह थ्यान ६ ाक र. 1,05,05,000 - १०२२ २२ २२४५ ... । ... ... ... ... ... ... होने तक अतिरिक्त सेविदात्मक ब्याज के साथ आपके ऋण खाते पर देय हैं, जिसे आप कृपया नोट कर लें।

संपत्ति का विवरण:- संपत्ति का पताः आवासीय मकान नंबर 3/161, कुल क्षेत्रफल 139.40 वर्ग मीटर, सेक्टर-2. आवासीय कॉलोनी, राजेंद्र नगर, गाजियाबाद तहसील और जिला गाजियाबाद, उ.प्र. में स्थित। पूर्व-मकान नंबर 3/195 पश्चिमः-सङ्क 30 फीट चौड़ी उत्तर-मकान नं. 3/162 दक्षिण- मकान नंबर

प्राधिकृत अधिकारी (आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड)

दिनांकः 13 फरवरी, 2024 स्थानः कोलकाता

अध्यक्ष

डीआईएनः 00464390